

To,
BSE LIMITED
25th Floor, P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001, MH

Date: August 19, 2024

Scrip Code: 532829

Sub: Intimation of submission of Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of Extract of Newspaper of Notice of 30th Annual General Meeting of the Company to be held at registered office of the Company published on August 18, 2024 in following newspapers:

- *Financial Express (English)*
- *Nafa Nuksan (Hindi)*
- *Business Remedies (Hindi)*

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,
for **Lehar Footwears Limited**

Ritika Poddar

Company Secretary & Compliance Officer

ACS No. A65615

Encl: As Above



LEHAR FOOTWEARS LIMITED

A-243(A), Road No.6, V.K.I. Area, Jaipur (INDIA)

Phone : +91-141-4157777

W.- www.leharfootwear.com, E.-info@leharfootwear.com •

CIN No. : L19201RJ1994PLC008196

ISO 9001 (QMS)
ISO 14001 (EMS)
ISO 18001 (OHSAS)
REGISTERED FIRM

WAE LIR Evawave istUDENT PU BLISS + ORTHO RELAX
Doctor of Your Feet

PNB Housing Regd. Office : 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001, Ph : 011-23357171, 23357172, 23705414, Website : www.pnbhousing.com

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the PNB Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notices on the date mentioned against each account falling under the respective borrower(s) to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notices.

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property(ies) and any dealing with the property(ies) will be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd., for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr. No.	Loan Account No.	Name of the Borrower/Co-Borrower/Guarantor	Demand Notice Date	Amount Outstanding	Date of Possession Taken	Description Of The Property Mortgaged
1.	HOU/ME/0818/572078 B.O. MEERUT	Mr. Sandeep Pundir & Mrs. Beena Pundir	16-05-2024	Rs. 16,31,517.32 (Rupees Sixteen Lacs Thirty One Thousand Five Hundred Seventy and 32/100 Paise Only) Due as on 16/05/2024	13-08-2024 (Symbolic)	All that Part And Parcel Of Ground Floor Flat On Plot No. 72, Khassa No. 32, 5/1, 6, 7, 9, 10, 11, 12/2, 13/2, 14/2, 14/3, 15, 16, 17, 20, 26, Vishram Vatika, Revenue Village Sofipur Pilana, Pargana Tehsil & Distt- Meerut, Uttar Pradesh - 250001.

PLA CE:- MEERUT, DATE:- 16.08.2024 AUTHORIZED OFFICER, PNB HOUSING FINANCE LTD.

AXIS BANK Retail Asset Centre - AXIS BANK LTD, 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension, Lucknow, UP 226010. Corporate Office - "Axis House", C-2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400025. Registered Office: "Trishul", 3rd Floor Opp. Samarathwar Temple Law Garden, Ellisbridge Ahmedabad - 380006

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor(s) that the below described immovable property is mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Secured Creditor will be sold on "As is here", "As is what is" and "Whatever there is" on 5th Sept 2024 for recovery of Rs.16,49,487.00 dues with future interest and costs due to the secured creditor from BACCHU SINGH S/O SH. JYOTI RAM, MRS. MAMTA W/O SH. BACCHU SINGH (PHR008620523549 / BACCHU SINGH) auction schedule for necessary details.

Sr. No.	known encumbrances (if any)	RESERVE PRICE (IN RS.) EARNEST MONEY DEPOSIT (IN RS.)	BID INCREMENTAL AMOUNT	LAST DATE, TIME AND VENUE FOR SUBMISSION OF BIDS WITH SEALED OFFER/ TENDER WITH EMD	DATE, TIME, AND VENUE FOR OPENING OF BIDS.
1.	NIL	Rs.834516/- Rs.83452.00	Rs. 10,000/-	Till 4th Sept, 2024, latest by 05:00 P.M. at Axis Bank Limited, (RAC), First Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension, Lucknow-226010, U.P. Addressed to Mr. Anand Singh.	On 5th Sept 2024, between 11.00 A.M and 12.00 Noon, with unlimited extensions of 5 minutes each at web portal. https://www.bankauctions.com e-auction tender documents containing e-auction bid form, declaration etc., are available in the website of the Service Provider as mentioned above

DESCRIPTION OF PROPERTY/HOUSE HAVING ABOUT - All such pieces or parcels of a diverted land/property measuring area 41.78 sq.mt., situated at PLOT NO-13 ANUPAM CITY, ANUPAM CITY, PHASE II, AGRA which is in the name of MRS. MAMTA, East- LAND OF OTHERS, West- RASTA 6 MT, North-Plot Number 12, South- Plot Number 14. For detailed terms & Conditions of the sale, Please refer to the link provided in the secured creditor's Website. I.e., <https://www.axisbank.com/auction-retail> and the Bank's Approved Service Provider M/S C1 India Private Limited at their Web portal <https://www.bankauctions.com> For any other Assistance, The Intending Bidders may contact Mr. NIKHIL SHARMA, Mobile No.993510962 of the Bank during office hours from 9:30 AM to 5:30 PM. This Notice should be considered As 15 Days' Notice to the borrowers Under Rule 8(6) of the security interest (enforcement) Rule,2002.

Date:- 18/08/2024, Place: UP Sd/-, Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

Canara Bank CHANNI HIMMAT BRANCH (2975) - 250 A, SECTOR-2, CHANNI HIMMAT, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR - 180015

POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the CANARA BANK, under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice(s) to Borrower(s) / Mortgagor(s) on the dates mentioned hereunder, calling upon the Borrower(s) / Mortgagor(s) to repay the amount(s) mentioned in the respective demand notice(s) within 60 days of the notice.

The Borrower(s) / Guarantor(s) having failed to repay the amount(s), notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and public in general, that the Authorized Officer has taken possession of the property(ies) described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the dates mentioned hereunder.

The Borrower(s) / Guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the amount mentioned below of the CANARA BANK, CHANNI HIMMAT (2975) BRANCH.

The Borrower's attention is invited to the provisions of Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of the Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s) & Mortgagor(s)	Description of the Immovable Property	Date of Demand Notice	Amount Due	Date of Possession
Borrower(s):- (1) K&K Enterprises, Prop. - Smt. Shringar Sinha, Business by DDA, Harmony Apartments, Cat-II situated at Pocket-1, Sector-4, Dwarka, New Delhi-110075. Address:- House No. 146, Bounded as under: North: Flat No. 43; South: Entry / Staircase / Flat / 9' Wide Passage; East: Sector-5, Channi Himmat, 40' Wide Road; West: 8' Wide Lane.	Ground Floor DDA-SFS, Cat-II, Flat No. 47, built up area - 807.30 Sq. Ft. (75 Sq. M.) allotted plus interest thereon w.e.f. 01.08.2022.	05.08.2022	Rs. 53,14,341.66	17.08.2024
Jammu, J&K - 180015 (2) Smt. Shringar Sinha D/o Tarun Kumar Srivastava, R/o Flat No. 47, DDA-SFS, Pocket 1, Sector 4, Harmony Apartments, Dwarka, New Delhi-110075. Guarantor(s)/ Mortgagor(s):- Smt. Kirti Gandotra W/o Late Satish Gandotra, R/o Flat No. 47, DDA-SFS, Pocket 1, Sector 4, Harmony Apartments, Dwarka, New Delhi-110075.				

Date: 17.08.2024 Place: Delhi AUTHORIZED OFFICER

BDR BUILDCON LIMITED CIN- L70100DL2010PLC200749 Regl. Office- 21, Ring Road, Third Floor, Lajpat Nagar- IV, New Delhi-110024. Tel.: 011-2647 7771, Website: www.bdrbuildcon.com, E-mail: info@bdrbuildcon.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30th JUNE, 2024

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Financial Year Ended	
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	Nil	Nil	Nil	Nil
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	(4,16,457)	(3,05,774)	(2,33,907)	(8,80,604)
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	(4,16,457)	(3,05,774)	(2,33,907)	(8,80,604)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary Items)	(4,16,457)	(3,05,774)	(2,33,907)	(8,80,604)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	(4,16,457)	(3,05,774)	(2,33,907)	(8,80,604)
6	Equity Share Capital (Face Value of Re.10/- each)	6,64,50,000	6,64,50,000	6,64,50,000	6,64,50,000
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous accounting Year)	2,55,20,932	2,59,37,389	2,65,84,086	2,59,37,389
8	Earnings Per Share (for continuing and discontinuing period) (FV of Re.10/- each)				
	Basic:	(0.06)	(0.05)	(0.04)	(0.13)
	Diluted:	(0.06)	(0.05)	(0.04)	(0.13)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone Financial Results for the Quarter Ended on 30th June, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange(s) https://www.nseindia.com/emerge_jtr/ and the listed entity www.bdrbuildcon.com.
2. The above Audited Standalone Financial Results for the Quarter Ended on 30th June, 2024 audited by the Statutory Auditors were taken on record and approved by the Board of Directors in their meeting held on August 14, 2024.

For BDR BUILDCON LIMITED Sd/- RAJESH GUPTA Managing Director

Place-New Delhi Date-14.08.2024

LEHAR FOOTWEARS LIMITED REG OFFICE: A-243(A), ROAD NO.6, V.K.I. AREA, JAIPUR 302013 RJ, PHONE : 0141-4157777, FAX: 0141-4157766 Website: www.leharfootwear.com, E-mail: csco@leharfootwear.com, info@leharfootwear.com, CIN: L19201RJ1994PLC008196

NOTICE OF THE 30th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Lehar Footwears Limited ("Company") will be held on Tuesday, September 10, 2024 at 11:00 A.M. at A 243 (A), Road No. 6, V.K.I Area, Jaipur- 302013 RJ.

The notice of 30th AGM setting out the business to be transacted at the meeting and the Annual Report of the Company for FY 2023-24 has been sent in electronic mode to the members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participants. The requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the members has been dispensed with the vide MCA circular(s) and SEBI Circular.

In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended from time to time and regulation 44(1) of the SEBI (LODR) Regulation, 2015, the Company has provided its members the facility to cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice.

Notice is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 42 SEBI (LODR) Regulations, 2015, the register of members and share transfer book of the Company will remain closed from September 04, 2024 to September 10, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 30th AGM of the Company.

The details as required by aforesaid provisions are given hereunder:
i. Date and time of commencement of remote e-voting: Saturday, September 07, 2024 at 9.00 A.M.
ii. The remote e-voting shall end on Monday, September 09, 2024 at 05.00 P.M.
iii. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., September 03, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
iv. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of notice of the AGM should follow the same procedure for the e-voting as mentioned in the notice of the Company.
v. Voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Monday, September 09, 2024.
vi. The facility of voting through ballot paper shall be made available at the AGM.
vii. The notice of the AGM and Annual Report is available on the Company's Website www.leharfootwear.com as well as on the BSE Ltd. at www.bseindia.com.
viii. The members who have casted vote prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
ix. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 30th AGM and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, Members may refer the frequently asked questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the HELP section of www.evotingindia.com or may write to helpdesk.evoting@cdslindia.com or evoting@nsdl.co.in or ivote.bigshareonline.com or can contact to Company at csco@leharfootwear.com.
x. The Company has appointed Mr. Gaurav Goyal, Practising Company Secretary (CP No.22052) as the Scrutinizer to Scrutinize the remote e-voting and ballot process in a fair and transparent manner.

The Board of Directors of Lehar Footwears Limited ("the Company"), at its Meeting held on 30th May, 2024, has recommended a Final Dividend of Rs. 0.30/- per Equity Share for the Financial Year ended 31st March, 2024, subject to approval of the Shareholders at the ensuing 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company and will be paid within 30 days from the declaration of dividend to the members whose names appear in the Registered of Members as on the cut-off date, i.e., September 03, 2024 through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details. For members who have not updated their bank accounts details, dividend warrants/demand drafts/cheque will be sent to the registered addresses depending on availability of postal services. To avoid delay in receiving the dividend, Members are requested to update their complete bank account with Company/RTA (in case of physical mode) and depositories (in case of demat mode). Shareholders may please note that in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by and read with the provisions of the Finance Act, 2020, dividend declared and paid by the Company with effect from 1st April, 2020, is taxable in the hands of Shareholders and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Shareholders at the applicable rates.

The results on the resolutions shall be declared within 48 hours of the conclusion of the AGM. Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company www.leharfootwear.com and on the website of BSE i.e., www.bseindia.com.

Sd/- Ritika Poddar Company Secretary & Compliance Officer ACS No.: A65615

Date: 17.08.2024 Place: Jaipur

SBFC Finance Limited Registered Office:- Unit No. 103, First Floor, C&B Square, Sangam Complex, Village Chakala, Andheri- Kuria Road, Andheri (East), Mumbai-400059.

POSSESSION NOTICE (As per Rule 8(2) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of SBFC Finance Limited under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued Demand Notices upon the Borrowers/Co-borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower/Co-borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the below-mentioned dates.

The Borrower/Co-borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of SBFC Finance Limited.

Name and Address of Borrowers & Date of Demand Notice	Description of Property(ies) & Date of Possession	Amount demanded in Possession Notice (Rs.)
1. SRI VARSHNEY CATERARS, 2. NAGESH VARSHNEY, 3. NANDANI UMESH VARSHNEY, all having their address at, Vashundhra Colony, Palm Royal ke Same 2nd Road, Mathura Road, Aligarh, Agra, Uttar Pradesh-202001.	All that piece and parcel of the Plot property having an area 158.33 sq. yards = 132.38 sq. mtrs., which is part and parcel of Khassara No. 80/2, 81/1, along with construction thereon, situated at Mauja Daulatabad, Pargana and Tehsil Koiil, District Aligarh and Property bounded as under- East- Rasta 25 feet wide, Measuring this side 25 feet, West- Plot of other person, Measuring this side 25 feet, North- Plot of Chandrawati, Measuring this side 57 feet, South- Plot of Other person, Measuring this side 57 feet.	Rs. 13,41,681/- (Rupees Thirteen Lakh's Forty One Thousand Six Hundred Eighty One Only) as on 3rd May 2024

Demand Notice Date: 4th May 2024 Loan No. *402106000086964-C/PR00951833 Date of Possession: 16th August 2024

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Place: Aligarh Sd/- (Authorized Officer) SBFC Finance Limited. Date: 18.08.2024

AXIS BANK Retail Asset Centre - AXIS BANK LTD, 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension, Lucknow, UP 226010. Corporate Office - "Axis House", C-2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400025. Registered Office: "Trishul", 3rd Floor Opp. Samarathwar Temple Law Garden, Ellisbridge Ahmedabad - 380006

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor(s) that the below described immovable property is mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Secured Creditor will be sold on "As is here", "As is what is" and "Whatever there is" on 5th Sept 2024 for recovery of Rs.25,80,500.00 dues with future interest and costs due to the secured creditor from VISHNU KUMAR GUPTA S/O HARO OM GUPTA, SHIVA GUPTA S/O VISHNU KUMAR GUPTA (PHR008601656463 / VISHNU KUMAR GUPTA, SHIVA GUPTA) auction schedule for necessary details.

Sr. No.	known encumbrances (if any)	RESERVE PRICE (IN RS.) EARNEST MONEY DEPOSIT (IN RS.)	BID INCREMENTAL AMOUNT	LAST DATE, TIME AND VENUE FOR SUBMISSION OF BIDS WITH SEALED OFFER/ TENDER WITH EMD	DATE, TIME, AND VENUE FOR OPENING OF BIDS.
1.	NIL	Rs.2498000.00 Rs.2,49,800.00	Rs. 10,000/-	Till 4th Sept, 2024, latest by 05:00 P.M. at Axis Bank Limited, (RAC), First Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension, Lucknow-226010, U.P. Addressed to Mr. Anand Singh.	On 5th Sept 2024, between 11.00 A.M and 12.00 Noon, with unlimited extensions of 5 minutes each at web portal. https://www.bankauctions.com e-auction tender documents containing e-auction bid form, declaration etc., are available in the website of the Service Provider as mentioned above

DESCRIPTION OF PROPERTY/HOUSE HAVING ABOUT - All such pieces or parcels of a diverted land/property measuring area 113.80 sq.mt., situated at FLAT No. 502 A, SECOND FLOOR ASHOKA AVENUE (NAVEEN NIKUNJ) PHASE -1 OPP - KAMAYANI HOSPITAL AGRA, U.P. 282007. East - CORRIDOR, West - FLAT No. 402 A, North - OPEN SKY, South - FLAT No. 502 B. For detailed terms & Conditions of the sale, Please refer to the link provided in the secured creditor's Website. I.e., <https://www.axisbank.com/auction-retail> and the Bank's Approved Service Provider M/S C1 India Private Limited at their Web portal <https://www.bankauctions.com> For any other Assistance, The Intending Bidders may contact Mr. NIKHIL SHARMA, Mobile No.993510962 of the Bank during office hours from 9:30 AM to 5:30 PM. This Notice should be considered As 15 Days' Notice to the borrowers Under Rule 8(6) of the security interest (enforcement) Rule,2002.

Date:- 18/08/2024, Place: UP Sd/-, Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

punjab national bank POSSESSION NOTICE ...the name you can BANK upon!

POSSESSION NOTICE FOR Movable/Immovable Properties (Under Rule 8(1) Security Interest (Enforcement) Rule 2002)

Whereas, The Undersigned being Authorized Officer of Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act no. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section-13 (12) read with Rule-3 of the Security interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice on the date mentioned against account and stated here under calling upon the borrower/guarantor/mortgagor/Legal heir to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within (60) sixty days from the date of receipt of said notice. The borrower/guarantor/mortgagor having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower/guarantor/mortgagor/Legal and the public in general that the undersigned has taken the Symbolic possession of the properties described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section-13 (4) of the said act read with the Rule 8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The Borrower/Guarantor/Mortgagor/Legal attention is invited to the provision of Sub-Section (8) of section-13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The borrower/guarantor/mortgagor/Legal heir in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amount and interest thereon. Details of the mortgaged Properties of which the possession had been taken is as follows.

Name of the Borrower/ Mortgagor & Branch	Details of the Mortgaged Property on which possession taken	Amount Due as per Demand Notice	Date of Possession
Borrower/ Mortgagor/Guarantor-1. M/s Tyagi Enterprises (Through its Proprietor), 2. Shri Krishan Kant Tyagi S/o Shri Vijendra Singh Tyagi, 3. Shri Vijendra Singh Tyagi S/o Shri Karan Singh Tyagi Branch-Sanjay Place, Agra.	EQM of Residential Property Situated at Plot No - 50, Municipal no. 43/DN/P-50, Deep Nagar, Mauza, Bodla, Tehsil and Distt. Agra, Vide Registered Title Deed Registered on 06.10.2009 in Bahi no. 1, Zild no. 6497 On Pages 231 to 254, at Sr. No. 8244 with Sr Registrar- II Agra, Area:- 173.90 SQM, Owners: Shri Vijendra Singh Tyagi, Bounded:- On the East by-House Jeevan Lal Gautam, On the West by-House Situated on Plot No. 56, On the North by-Road 9 Feet Wide and Exit. On The South by-Other Land.	Rs. 38,97,983.11/- (Thirty Eight Lakh Ninety Seven Thousand Nine Hundred Eighty Three Rupees and Eleven Paise Only) as on 31.03.2024 + interest w.e.f. 01.04.2024 and Other Admissible charge	14.08.2024

Place: Agra, Date: 14.08.2024

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SBI STATE BANK OF INDIA Najibabad Branch 00688, Station Road, Bijnor-246763

APPENDIX-IV-A" (See proviso to rule 8 (6)) (Sale notice for sale of Immovable Property)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower that the below described Immovable Property mortgaged/charged to the Secured Creditors, the Physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of State Bank of India, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on below mentioned date, for recovery of amount as mentioned below, due to the Secured Creditors from following Borrower.

The reserve price and earnest money to be deposited is mentioned below respectively

Sr.	Name of Borrower	Description & owner(s) of property	Reserve Price (RP) EMD Amount 10% of The Reserve Price	Recovery Amount	Date & Time of E-Auction
1	M/s Raja Traders through Shri Ranveer Singh (Proprietor) S/o Shri Ram Singh.	All the part & parcel of the Residential cum Commercial property admeasuring 31.87 Sq Mt situated at Moh: Maqbara, Near Guru Nanak Gurudwara, Najibabad, Distt: Bijnor, in name of Shri Ranveer Singh (Sale deed registered at SRO, Najibabad in Book No. 1, Zild no. - 2113 on Page no. 1-30 at serial no. 5241 dated 15.06.2004 in the name of Shri Ranveer Singh S/o Shri Ram Singh Boundaries: -East: Road, West: Naala, North: Plot, South: Pani Ki Puliya	28,19,000/- (Rupees Twenty Eight Lacs Nineteen Thousand only) 2,81,900/- (Rupees Two lacs Eighty-One thousand Nine Hundred only)	19,57,483/- as on 16.01.2024+ Intt. (W.e.f 17.01.2024) + other Expenses less deposit/ Recover if any	27-09-2024 (with unlimited extensions of 10 minutes each)

EMD to be transferred/deposited by bidders in his/her/their own wallet provided by M/s MSTC Ltd. on its E-Auction site <https://www.mstcecommerce.com/> auctionhome/ibapi/index.jsp by means of NEFT

TERMS AND CONDITIONS:
E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS", AS IS WHAT IS" AND WHATEVER THERE IS" basis and will be conducted "On Line". The auction will be conducted through the Bank's approved service provider M/s MSTC Ltd. (Helpdesk No. 033-2290-1004) at their web portal <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>; Declaration, General Terms and Conditions of online auction sale are available in <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> Interested bidder may deposit Pre-Bid EMD with MSTC before the close of e-Auction. Credit of Pre-e-bid EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in MSTC's Bank account and updation of such information in the e-auction website. This may take some time as per banking process and hence bidders, in their own interest, are advised to submit the pre-bid EMD amount well in advance to avoid any last minute problem. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, to the title of properties put on auction and claims/rights/dues/affecting the property/less, prior to submitting their bid. In this regard, the e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the Bank The Authorised Officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. The sale shall be subject to rules/conditions prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The other terms and conditions of the e-auction are published in the following websites 1. <https://www.mstcecommerce.com>, 2. <http://www.sbi.co.in>

STATUTORY 30 Days SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002

Date: 18.08.2024 Place : Bijnor Sd/- Authorized Officer, State Bank of India

Central Bank of India CENTRAL OFFICE: Chandni Moh, Narmada Park, Mumbai REGIONAL OFFICE: 3724 Sanjay Place, Agra-202002 Phone: 0562-265996, 265997, 265998

Correspondence E-Auction Notice

In The E-auction Notice Published in Financial Express News Paper Dated 09.08.2024, E-Auction Of Mrs. Radha Rani W/o Mr. Lalit Kumar Varshney, Branch- Sassi, Hathras Is Scheduled To Be Held On 17.09.2024 Which Was To Be Done On The Web Portal <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi> Which Has Now Been Changed To The Web Portal <https://ebkray.in> Now The E-auction Portal Has Changed. Interested bidders will register on website <https://ebkray.in> and have to complete Buyer Registration process, EMD amount to be deposited in wallet of eBkray only. (Procedure-Buyer/Bidder has to login in his/her eBkray portal using his login id & password). Visit <https://ebkray.in> The Website For Terms And Conditions.

All Other Condition of Sale Notice Remain Same. Authorised Officer

FRICK INDIA LIMITED Regd. Office: 21.5 Km, Main Mathura Road, Faridabad - 121003. CIN - L74899HR1962PLC002618. E-mail- cs@frickmail.com, Ph. 0129-2275691-94, 2275646-47 ; Fax: 0129-2275695 Web: www.frickweb.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of Companies Act, 2013 read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the MCA circulars (as defined below)

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and such other applicable laws, rules & regulations (including any statutory modification(s) or re-enactments(s) thereof, for the time being in force) and in terms of General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 03/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively "MCA Circulars"), and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2011/11 dated January 15, 2021, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (collectively referred as "SEBI Circular") (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as "Circulars"), Frick India Limited (the "Company") has on 17th August, 2024 completed the dispatch of Postal Ballot Notice ("the Notice") through email to all its Members who have registered their e-mail IDs with the Depository through the concerned Depository Participants and/or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), Link Intime India Private Limited ("LINKINTIME") for seeking their approval by way of ordinary/ special resolution in respect of the businesses mentioned in the Notice dated 14th August, 2024.

The Company has engaged the services of Linkintime India Private Limited to provide the remote E-Voting facility. The Remote E-Voting facility will be commenced on August 19, 2024 at 09:00 A.M (IST) and will end on September 17, 2024 at 05:00 P.M (both days inclusive). Remote E-Voting will be disabled by LINKINTIME on Tuesday, 17th September, 2024. The Board of Directors has appointed M/s. Aditi Gupta having FCS No. 9410 & CP No. 10512 of M/s Ad

